

वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक


[स्रोत: बज़िनेस लाइन](#)

वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार भारत ने '[अत्यंत नरिधनता](#)' में जीवन-यापन करने वाले लोगों का अनुपात **3% से कम** करने का सफल प्रयास किया है।

- यह उपलब्धि [संयुक्त राष्ट्र](#) द्वारा निर्धारित वर्ष 2030 के लक्ष्य के साथ **17 सतत विकास लक्ष्यों** में से पहले लक्ष्य की प्राप्ति की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के प्रमुख नषिकर्ष क्या हैं?

- परिचय:**
 - वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक विश्व के लगभग सभी देशों के लिये वर्ष 2030 के लक्ष्य के साथ **वास्तविक समय में नरिधनता** अनुमान ट्रैक करती है और **अत्यंत नरिधनता के उन्मूलन की दशा में देशों की प्रगति** की निगरानी करती है।
 - यह क्लॉक समग्र विश्व में अत्यंत नरिधनता में जीवन-यापन कर रहे लोगों की **संख्या** दर्शाता है, **आयु, लिंग और ग्रामीण अथवा शहरी नवास** के आधार पर उन्हें क्रमबद्ध करता है, **गरीबी रेखा से उबरने** तथा प्रत्येक सेकंड गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों के संबंध में वास्तविक समय में उनकी संख्या दर्शाता है।
 - पलायन दर (Escape Rate) विश्व की कुल नरिधनता में हुई कमी की **वर्तमान दर** की गणना करती है।
 - यह [कृषिविकास के लिये अंतरराष्ट्रीय कोष](#) और **जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मंत्रालय** द्वारा समर्थित है।



- पद्धति और प्रमुख नषिकर्ष:**
 - गरीबी दर की गणना करते समय यह **आय के स्तर** को ध्यान में रखता है जिसमें गरीबी सीमा **2.15 अमेरिकी डॉलर** प्रतिदिन निर्धारित की जाती है।
 - 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा**, कुछ सबसे गरीब देशों में राष्ट्रीय गरीबी रेखा को दर्शाती है, जिसे आमतौर

पर अत्यधिक गरीबी रेखा के रूप में जाना जाता है।

- इसका प्रयोग वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की हसिसेदारी को 3% से कम करने के [वशिव बैंक](#) के लक्ष्य की दशा में प्रगतकी नगरानी के लिये कया जाएगा।
 - **भारत में अत्यधिक गरीबी का सामना करने वाली जनसंख्या** वर्ष 2022 में 4.69 करोड़ से घटकर वर्ष 2024 में लगभग 3.44 करोड़ हो गई, जो **कुल जनसंख्या का 2.4%** है।
 - ये आँकड़े [नीतिआयोग](#) के CEO के दावे की पुष्टि करते हैं कि [घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण](#), सत्र **2022-23** के आधार पर, **5% से कम भारतीयों के गरीबी रेखा से नीचे होने का अनुमान** है, अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो गई है।
- **अन्य वैश्विक लक्ष्य:**
 - **SDG लक्ष्य 1.1** का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक वैश्विक गरीबी उन्मूलन** है, जो सभी देशों, क्षेत्रों और समूहों के लिये एक ही अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा पर **शून्य गरीबी तक** पहुँचने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नरिधारति करता है।
 - **गरीबी पर नीतिआयोग का हालिया दस्तावेज़:**
 - हाल ही में [नीतिआयोग](#) के एक दस्तावेज़ में भारत में [बहुआयामी गरीबी](#) में उल्लेखनीय कमी का पता चला, जो वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई, जिससे 9 वर्ष की अवर्धा में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर नकिले हैं।
 - दस्तावेज़ द्वारा [राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण](#) डेटा तथा NFHS डेटा के बनिा वर्षों के अनुमान तरीकों का उपयोग करके वर्ष 2005-06 से वर्ष 2022-23 तक भारत में बहुआयामी गरीबी प्रवृत्तियों का वशिलेषण कया।

Growth in poverty control

	Total population	Number of people living in extreme poverty	%
	(in crore)		
2016	132.37	7.59	5.7
2018	135.29	6.26	4.6
2020	138.21	6.73	4.9
2022	140.85	4.69	3.3
2024	143.48	3.44	2.4

Source: www.worldpoverty.io

और पढ़ें... [घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. कसि दयि गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि:

- गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है
- कीमत-स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है
- सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है
- सार्वजनिक वितरण की गुणता अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है

उत्तर: (b)

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

- केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं।
- परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कयि जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी।
- गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 1 और 3
- केवल 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. COVID-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं और गरीबी को गतदि दी है। टपिपणी कीजयि। (2020)

प्रश्न: भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु वभिन्नि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद, गरीबी अभी भी वदियमान है। कारण सहति स्पष्ट कीजयि। (2018)